

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**जनपद बस्ती**  
**दिनांक-21.11.2021**

**थाना पुरानी बस्ती व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस मुठभेड़ में थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी को गोली मारकर लूट का प्रयास करने वाले दर्जनों मुकदमों में वांछित अंतर्जनपदीय गैंगेस्टर अपराधी व लुटेरे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री शक्ति सिंह के नेतृत्व में थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती श्री आलोक श्रीवास्तव मय पुलिस बल व प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 श्री राजकुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी को गोली मारकर लूट का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 301/2021 धारा 307 IPC से सम्बंधित वांछित अंतर्जनपदीय गैंगेस्टर अपराधी अभियुक्त सूरज जायसवाल पुत्र गोरख जायसवाल निवासी ग्राम चिउटहा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर (उ0प्र0) उम्र करीब 26 वर्ष को आज दिनांक 21.11.2021 को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दाहिने पैर में व चौकी प्रभारी दक्षिण दरवाजा श्री जितेन्द्र सिंह के दाहिने हाथ में गोली लगी, जिन्हें उपचार हेतु सदर अस्पताल बस्ती लाया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त सूरज जायसवाल पर रुपये 25,000/- के इनाम की घोषणा की गयी थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

**1-** सूरज जायसवाल पुत्र गोरख जायसवाल निवासी ग्राम चिउटहा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर (उ0प्र0) उम्र करीब 26।

**बरामदगी का विवरण-**

- 1-** एक अदद देशी तमंचा 315 बोर।
- 2-** एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 3-** एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
- 4-** एक अदद बजाज मोटरसाइकिल (चोरी की)।
- 5-** नगद रुपये 4,300/- (लूटी हुई सम्पत्ती को बेचकर प्राप्त पैसो में से)।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-14.10.2021 को थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रान्तर्गत दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा व्यापारी को हाईवे पर छिनैती के प्रयास के दौरान गोली मारने के सम्बन्ध में थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 301/2021 धारा 307 IPC पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त सूरज जायसवाल पुत्र गोरख जायसवाल निवासी ग्राम चिउटहा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर (उ0प्र0) उम्र करीब 26 द्वारा अपने एक अन्य साथी गोविन्द जोकि वर्तमान समय में सिद्धार्थनगर कारागार में निरुद्ध है, के साथ मिलकर व्यापारी को गोली मारकर छिनैती का प्रयास किया गया था जिसकी तलाश हेतु थाना पुरानी बस्ती व जनपद से कई टीम लगी हुई थी।

आज दिनांक-21.11.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती श्री आलोक श्रीवास्तव मय पुलिस बल व प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 श्री राजकुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान अभियुक्त सूरज जो बिना नम्बर प्लेट के मोटरसाईकील से जा रहा था को चैनपुरवा ओवरब्रिज के नीचे रोकन का प्रयास किया गया तो उसने जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर फायरिंग कर दिया। पुलिस बल द्वारा अभियुक्त सूरज जायसवाल को आत्मसुरक्षा में अपने आप को बचाने हेतु फायर किया गया, जहाँ हुई पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त सूरज जायसवाल के दाहिने पैर में व चौकी प्रभारी दक्षिण दरवाजा श्री जितेन्द्र सिंह के दाहिने हाथ में गोली लगी, जिन्हें उपचार हेतु सदर अस्पताल बस्ती लाया गया।

## पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त सूरज जायसवाल द्वारा बताया गया की मैं तथा मेरा साथी गोविन्द जो अभी सिद्धार्थनगर जेल में बन्द है, हम दोनों ने लगभग 30 से 40 दिन पहले चैनपुरवा ओवरब्रीज के पास एक व्यापारी से छिनैती के प्रयास के दौरान हमें लगा की हम सभी पकड़े जायेंगे तो व्यापारी को गोली मारकर भाग गये थे। हम दोनों ने बस्ती जनपद में कुछ दिन पूर्व में किसान डिग्री कालेज के सामने दो महिलाओं की गले की चैन को छिन लिया था तथा बस्ती शहर में पीक्चर हाल के सामने अपने घर के सामने लेटी हुई महिला के गले से चैन छिन लिया था और सभी लूटे हुए सामानो को नेपाल ले जाकर बेच दिया जिससे प्राप्त पैसे को आपस में बाट लिए थे। मेरे पास से मिले रुपये 4,300/- मगद उन्हीं पैसो में से बचा हुआ पैसा है।

मैं व मेरा साथी गोविन्द द्वारा एक साथ व अलग-अलग कई अन्य जिलों में अपराध किये है तथा मेरे विरुद्ध थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर व अन्य थानों में मुकदमे पंजीकृत है।

## गिरफ्तार अभि० का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 301/2021 धारा 307 IPC थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |
- 2- मु०अ०सं० 338/2021 धारा 307 IPC थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |
- 3- मु०अ०सं० 339/2021 धारा 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |
- 4- मु०अ०सं० 330/2021 धारा 392/323 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती |
- 5- मु०अ०सं० 385/2021 धारा 392 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती |
- 6- मु०अ०सं० 323/2016 धारा 356 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती |
- 7- मु०अ०सं० 321/2017 धारा 392/411 IPC थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर |
- 8- मु०अ०सं० 332/2017 धारा 392 /120 (B) IPC थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर |
- 9- मु०अ०सं० 395/2017 धारा 392/411 IPC थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर |
- 10- मु०अ०सं० 476/2017 धारा 392/411 IPC थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर |
- 11- मु०अ०सं० 481/2017 धारा 392/411 IPC थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर |
- 12- मु०अ०सं० 482/2017 धारा 392/411 IPC थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर |
- 13- मु०अ०सं० 378/2018 धारा 3(1) उ०प्र० गैग्रेस्टर एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर |
- 14- मु०अ०सं० 264/2019 धारा 379 IPC थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर |
- 15- मु०अ०सं० 301/2021 धारा 307 IPC थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |
- 16- मु०अ०सं० 199/2013 धारा 8/22 NDPS थाना कैट जनपद गोरखपुर |
- 17- मु०अ०सं० 200/2013 धारा 8/22 NDPS थाना कैट जनपद गोरखपुर |
- 18- मु०अ०सं० 018/2013 धारा 356 IPC थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर |
- 19- मु०अ०सं० 227/2021 धारा 392/411 IPC थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर |

अभियुक्त द्वारा जनपद वाराणसी व अन्य जनपदों में भी अपराध कारित किया गया है, जिसके अपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती श्री आलोक श्रीवास्तव जनपद बस्ती |
- 2- प्रभारी स्वाट टीम उ०नि० श्री राजकुमार पाण्डेय जनपद बस्ती |
- 3- वरिष्ठ उ०नि० श्री जय प्रकाश चौबे थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |
- 4- चौकी प्रभारी दक्षिण दरवाजा उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |
- 5- का० नीरज यादव, का० पवन यादव, का० साजिद जमाल थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |
- 6- हे०का० राकेश यादव, का० रवि प्रताप सिंह, का० रविशंकर शाह, का० धीरज मय स्वाट टीम जनपद बस्ती |